



**ऑनलाइन एकीकृत पोर्टल**  
**मोबाइल टावर व ऑप्टिकल फाइबर हेतु आवेदन प्रक्रिया तथा निस्तारण प्रणाली**  
(नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार)

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न दस्तावेजों को अपलोड करने हेतु PDF प्रारूप में, जिसके प्रत्येक का साइज़ 2 MB से अधिक न हो, तैयार रखें:

**क. यदि मोबाइल टावर की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे हैं**

- दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पंजीयन प्रमाणपत्र/अनुज्ञापत्र
- रूफ टॉप पोट हेतु संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी संस्था के अधिकृत संरचनात्मक अभियंता द्वारा निर्गत किया हुआ होना चाहिए : राज्य भवन निर्माण विभाग/स्थानीय निकाय/केंद्रीय भवन शोध संस्थान (सी बी आर आई), रुड़की/आई आई टी/एन आई टी, राज्य शासकीय अभियंत्रण (जानपद) महाविद्यालय अथवा समय समय पर अधिकृत की गई कोई और संस्था (यदि लागू है)
- रूफ टॉप टावर हेतु संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी संस्था के अधिकृत संरचनात्मक अभियंता द्वारा निर्गत किया हुआ होना चाहिए : राज्य भवन निर्माण विभाग/स्थानीय निकाय/केंद्रीय भवन शोध संस्थान (सी बी आर आई), रुड़की/आई आई टी/एन आई टी, राज्य शासकीय अभियंत्रण (जानपद) महाविद्यालय अथवा समय समय पर अधिकृत की गई कोई और संस्था (यदि लागू है)
- जीबीटी हेतु संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी संस्था के अधिकृत संरचनात्मक अभियंता द्वारा निर्गत किया हुआ होना चाहिए : राज्य भवन निर्माण विभाग/स्थानीय निकाय/केंद्रीय भवन शोध संस्थान (सी बी आर आई), रुड़की/आई आई टी/एन आई टी, राज्य शासकीय अभियंत्रण (जानपद) महाविद्यालय अथवा समय समय पर अधिकृत की गई कोई और संस्था (यदि लागू है)
- डीजल जनरेटर सेट के निर्माता को एआरएआई अथवा किसी अन्य प्राधिकृत एजेंसी द्वारा जारी टाईप टेस्ट प्रमाणपत्र (यदि लागू है)
- टावर का रेखांकन सभी विवरणों, नींव की विशेषताओं तथा डिज़ाइन प्राचल सहित
- क्षतिपूर्ति बंध (मूल) – किसी हानि अथवा चोट, जो टावर द्वारा दुर्घटना, किसी अप्रत्याशित दुर्घटना को छोड़कर, के विरुद्ध सुरक्षा की दृष्टि से (इस आशय का एक घोषणापत्र कि आवेदक सुरक्षा व प्रकाश संबंधी आवश्यक सावधानियां बरतेगा तथा ऐसे किसी भी मामले हेतु पूर्ण उत्तरदायी होगा)
- लोकेशन प्लान, साइट प्लान एवं स्ट्रक्चर प्लान
- भवन/भूस्वामी का अनापत्ति प्रमाणपत्र जिसपर मोबाइल टावर अधिष्ठापित किया जाना है तथा राजकीय परिसर के संबंध में अधिकृत व्यक्ति के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र
- अग्नि सुरक्षा विभाग द्वारा स्वीकृति, ऊंचे भवनों के मामले में जहाँ अग्नि स्वीकृति आवश्यक है (यदि लागू है)

- कोई अन्य संबंधित दस्तावेज़, आवेदक के मतानुसार, जो प्रस्तावित कार्य से जुड़ा अथवा संबंधित हो (यदि लागू है)
- समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित अन्य प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र (यदि लागू है)
- राज्य पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (यदि लागू है)
- एनएचएआई, एएसआई, एयरपोर्ट एथॉरिटी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (यदि लागू है)

**ख. यदि ओवर ग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे हैं**

- दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पंजीयन प्रमाणपत्र/अनुज्ञापत्र
- रूट प्लान

**ग. यदि भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे हैं**

- दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पंजीयन प्रमाणपत्र/अनुज्ञापत्र
- रूट प्लान
- राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों/लोक उपक्रम या विभिन्न व्यक्तियों से उनके भूमि पर ओ.एफ.सी. केबल बिछाने के लिए प्राधिकार